

# Isa

## Chapter 17

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

|          |                       |                       |                       |                       |        |                       |        |                       |   |
|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|---|
| מְשָׁא   | רְמִשְׁק              | הִנֵּה                | רְמִשְׁק              | מוֹטָר                | מֵעִיר | וְהִיְתָה             | מֵעִיר | מִפְּלָה:             | 1 |
| भारी-वचन | दमिश्क-का             | देखो                  | दमिश्क                | हटाया-जा-रहा-है       | नगर-से | और-होगी               | नगर-से | खंडहर-की              |   |
|          | <a href="#">H1834</a> | <a href="#">H2009</a> | <a href="#">H1834</a> | <a href="#">H5493</a> |        | <a href="#">H1961</a> |        | <a href="#">H4596</a> |   |

यह दमिश्क के लिये दुःखद सन्देश है। यहोवा कहता है कि दमिश्क के साथ में बातें घटेंगी: “दमिश्क जो आज नगर है किन्तु कल यह उजड़ जायेगा। दमिश्क में बस टूटे फूटे भवन ही बचेंगे।

|       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |   |
|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| עֲרֵי | עָרָא                 | לְעִדָּרִים           | תְּהִיְיָנָה          | וְרָבְצוּ             | וְאִין                | מִחֲרִיד:             | 2 |
| नगर   | अरोएर-के              | झुण्डों-के-लिए        | होंगे                 | और-बैठेंगे            | और-नहीं-होगा          | डराने-वाला            |   |
|       | <a href="#">H6177</a> | <a href="#">H5739</a> | <a href="#">H1961</a> | <a href="#">H2757</a> | <a href="#">H0369</a> | <a href="#">H2729</a> |   |

अरोएर के नगरों को लोग छोड़ जायेंगे। उन उजड़ हुए नगरों में भेड़ों की रेवड़े खुली घूमेंगी। वहाँ कोई उनको डराने वाला नहीं होगा।

|                    |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |         |   |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|---|
| וְנִשְׁבְּתָ       | מִבְּצָר              | מֵאֶפְרַיִם           | וּמִמְלָכָה           | מִדְּמִשְׁק           | וּשְׂאָר              | אָרָם                 | כְּכַבֹּד             | בְּנֵי- | 3 |
| और-समाप्त-हो-जाएगा | गढ़                   | एप्रैम-से             | और-राज्य              | दमिश्क-से             | और-बचे-हुए            | अराम                  | महिमा-की-तरह          | बेटों-  |   |
|                    | <a href="#">H4013</a> | <a href="#">H0669</a> | <a href="#">H4467</a> | <a href="#">H1834</a> | <a href="#">H7605</a> | <a href="#">H0758</a> | <a href="#">H3519</a> |         |   |

|                       |                       |                       |                       |           |   |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
| יִשְׂרָאֵל            | יְהוָה                | נָאָם                 | יְהוָה                | זְבָאוֹת: | ס |
| यिस्राएल-के           | होंगे                 | कहता-है               | यहोवा                 | सेनाओं-का | — |
| <a href="#">H3478</a> | <a href="#">H1961</a> | <a href="#">H5002</a> | <a href="#">H3068</a> |           |   |

एप्रैम (इस्राएल) के गढ़ नगर ध्वस्त हो जायेंगे। दमिश्क के शासन का अन्त हो जायेगा। जैसे घटनाएँ इस्राएल में घटती हैं वैसे ही घटनाएँ अराम में भी घटेंगी। सभी महत्त्वपूर्ण व्यक्ति उठा लिये जायेंगे।” सर्वशक्तिमान यहोवा ने बताया कि ये बातें घटेंगी।

|                       |                       |                       |                       |                       |                       |            |                       |                       |   |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|-----------------------|-----------------------|---|
| וְהָיָה               | בְּיוֹם               | הַהוּא                | יָדָל                 | כְּבוֹד               | יַעֲקֹב               | וּמִשְׁמֹן | בְּשָׂרוֹ             | יָרוּחַ:              | 4 |
| और-होगा               | दिन-में               | उस                    | घट-जाएगी              | महिमा                 | याकूब-की              | और-मोटापा  | उसके-शरीर-का          | दुबला-हो-जाएगा        |   |
| <a href="#">H1961</a> | <a href="#">H3117</a> | <a href="#">H1931</a> | <a href="#">H1809</a> | <a href="#">H3519</a> | <a href="#">H3290</a> |            | <a href="#">H1320</a> | <a href="#">H7329</a> |   |

उन दिनों याकूब की (इस्राएल की) सारी सम्पति चली जायेगी। याकूब वैसा हो जायेगा जैसा व्यक्ति रोग से दुबला हो।

|                       |                       |        |                       |                       |           |         |                       |   |
|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------------|-----------------------|-----------|---------|-----------------------|---|
| וְהָיָה               | כְּאִסְףָּ            | קָצִיר | קָמָה                 | וּזְרָעוֹ             | שְׂבָלִים | יִקְצֹר | וְהָיָה               | 5 |
| और-होगा               | इकट्ठा-करने-में-जैसे  | कटनी   | खड़े-अनाज-की          | और-उसकी-बांह          | बालें     | काटेगा  | और-होगा               |   |
| <a href="#">H1961</a> | <a href="#">H0622</a> |        | <a href="#">H7054</a> | <a href="#">H2220</a> |           |         | <a href="#">H1961</a> |   |

|                         |           |                       |           |
|-------------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| כְּמִלְקָט              | שְׂבָלִים | בְּעֵמֶק              | רְפָאִים: |
| इकट्ठा-करने-वाले-की-तरह | बालें     | तराई-में              | रपाईम-की  |
| <a href="#">H3950</a>   |           | <a href="#">H6010</a> |           |

“वह समय ऐसा होगा जैसे रपाईम घाटी में फसल काटने के समय होता है। मजदूर उन पौधों को इकट्ठा करते हैं जो खेत में उपजते हैं। फिर वे उन पौधों की बालों को काटते हैं और उनसे अनाज के दाने निकालते हैं।

|                       |        |                       |                       |                       |                       |                       |                       |          |                       |   |
|-----------------------|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|-----------------------|---|
| וּנְשָׂא־             | בּוֹ   | עוֹלָלָת              | כְּנָקָה              | אֵית                  | שְׁנַיִם              | שְׁלֹשָׁה             | גְּרָגְרִים           | בְּרָאשׁ | אֲמִיר                | 6 |
| और-बचा-रहेगा-         | उस-में | झड़बेरी               | झाड़ने-जैसे           | जैतून-को              | दो                    | तीन                   | दाने                  | शिखर-पर  | चोटी-के               |   |
| <a href="#">H7604</a> |        | <a href="#">H5955</a> | <a href="#">H5363</a> | <a href="#">H2132</a> | <a href="#">H8147</a> | <a href="#">H7969</a> | <a href="#">H1620</a> |          | <a href="#">H0534</a> |   |

|                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |   |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| אֲרְבָּעָה            | חֲמִשָּׁה             | בְּסַעְפֵּיהָ         | פְּרִיָּה             | נְאֻם-                | וְהָיָה               | אֱלֹהֵי               | יִשְׂרָאֵל:           | ס |
| चार                   | पाँच                  | उसकी-डालियों-पर       | फलदार-की              | कहता-है-              | यहोवा                 | एलोहीम                | यिस्राएल-का           | — |
| <a href="#">H0702</a> | <a href="#">H2568</a> | <a href="#">H5585</a> | <a href="#">H6509</a> | <a href="#">H5002</a> | <a href="#">H3068</a> | <a href="#">H0430</a> | <a href="#">H3478</a> |   |

“वह समय उस समय के भी समान होगा जब लोग जैतून की फसल उतारते हैं। लोग जैतून के पेड़ों से जैतून झाड़ते हैं। किन्तु पेड़ की चोटी पर प्रायः कुछ फल तब भी बचे रह जाते हैं। चोटी की कुछ शाखाओं पर चार पाँच जैतून के फल छूट जाते हैं। उन नगरों में भी ऐसा ही होगा।” सर्वशक्तिमान यहोवा ने ये बातें कही थीं।

7 **בְּיָמָיו** **הָיָה** **יִשְׁעָה** **הָאָדָם** **עַל-** **עֲשָׂהוּ** **וַעֲיָיִו** **אֶל-** **קְדוֹשׁ** **יִשְׂרָאֵל**  
 दिन-में उस देखेगा मनुष्य की-ओर- अपने-बनाने-वाले की-ओर- पवित्र यिस्राएल-के  
[H3117](#) [H1931](#) [H8159](#) [H0120](#) [H3478](#) [H0413](#) [H6918](#)

**תְּרַאֲיֶנָּה:**  
 देखेगी  
[H7200](#)

उस समय लोग परमेश्वर की ओर निहारेंगे। परमेश्वर, जिसने उनकी रचना की है। वे इस्राएल के पवित्र की ओर सहायता के लिये देखेंगे।

8 **וְלֹא** **יִשְׁעָה** **אֶל-** **הַמְּזַבְּחֹת** **מַעֲשֵׂה** **יָדָיו** **וַאֲשֶׁר** **עָשָׂו** **אֶצְבְּעָתָיו** **לֹא**  
 और-नहीं देखेगा की-ओर- वेदियों कार्य अपने-हाथों-का और-जो बनाया उसकी-उंगलियों-ने नहीं  
[H3808](#) [H8159](#) [H0413](#) [H4196](#) [H4639](#) [H3027](#) [H0676](#) [H3808](#)

**וְהָאֱשֵׁרִים** **וְהַחַמְּנִים:**  
 और-अशराओं-को और-सूर्य-स्तम्भों-को देखेगा  
[H0842](#) [H2553](#) [H7200](#)

लोग उन वेदियों पर विश्वास करना समाप्त कर देंगे जिनको उन्होंने स्वयं अपने हाथों से बनाया था। अशरा देवी के जिन खम्भों और धूप जलाने की वेदियों को उन्होंने अपनी उँगलियों से बनाया था, वे उन पर भरोसा करना बंद कर देंगे।

9 **בְּיָמָיו** **הָיָה** **וַהֲיִי** **עָרִי** **מַעֲוָו** **כְּעֻזְבֹּת** **הַחַרְשׁ** **וְהָאֲמִיר** **אֲשֶׁר** **עָזְבוּ** **מִפְּנֵי**  
 दिन-में उस होंगे नगर उसके-गढ़-के छोड़ने-जैसे जंगल और-शिखर जो छोड़ा सामने-से  
[H3117](#) [H1931](#) [H1961](#) [H4581](#) [H4581](#) [H2793](#) [H0534](#) [H6440](#)

**בְּנֵי** **יִשְׂרָאֵל** **וְהִיְתָה** **שְׂמֵמָה:**  
 बेटों यिस्राएल-के और-होगा उजाड़  
[H3478](#) [H1961](#)

उस समय, सभी गढ़—नगर उजड़ जायेंगे। वे नगर ऐसे पर्वत और जंगलों के समान हो जायेंगे, जैसे वे इस्राएलियों के आने से पहले हुआ करते थे। बीते हुए दिनों में वहाँ से सभी लोग दूर भाग गये थे क्योंकि इस्राएल के लोग वहाँ आ रहे थे। भविष्य में यह देश फिर उजड़ जायेगा।

10 **כִּי** **שָׁכַחַת** **אֱלֹהֵי** **יִשְׁעָה** **וַצִּיר** **מַעֲוָו** **לֹא** **זָכַרְתָּ** **עַל-** **כֵּן**  
 क्योंकि भूल-गई-तू तेरे-उद्धार-के एलोहीम-को और-चट्टान तेरे-गढ़-के नहीं याद-किया-तूने इसलिए- इस-कारण  
[H7911](#) [H0430](#) [H3468](#) [H6697](#) [H4581](#) [H3808](#) [H2142](#)

**תִּשְׁכַּח** **נְטֵעֵי** **נְעֻמִים** **וּזְמֵרָת** **זָר** **תִּזְרַעְנָו:**  
 रोपती-है-तू पौधे मनोहर और-टहनियाँ पराए-की बोती-है-तू-उसे  
[H5193](#) [H5194](#) [H5282](#) [H2156](#) [H2232](#)

ऐसा इसलिये होगा क्योंकि तुमने अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को भुला दिया है। तुमने यह याद नहीं रखा कि परमेश्वर ही तुम्हारा शरण स्थल है। तुम सुदूर स्थानों से कुछ बहुत अच्छी अँगूर की बेलें लाये थे। तुम अंगूर की बेलों को रोप सकते हो किन्तु उन पौधों में बढ़वार नहीं होगी।

11 **בְּיָמָיו** **נְטֵעֵי** **תִּשְׁנֹשְׁנֵי** **וּבְבִקְרָ** **זְרַעְךָ** **תִּפְרִיחַי** **גֵּד** **קָצִיר** **בְּיָמָיו** **נִחְלָה**  
 दिन-में तेरे-रोपने-के बढ़ाती-है-तू और-सुबह-में फूलता-है-तू तेरा-बीज और-शोर-शोर काटनी-की दिन-में बीमारी  
[H3117](#) [H5194](#) [H7735](#) [H1242](#) [H2233](#) [H5067](#) [H3117](#)

**וּכְאֵב** **אֲנוּשׁ:**  
 और-दर्द असाध्य  
[H3511](#) [H0605](#)

एक दिन तुम अपनी अँगूर की उन बेलों को रोपोगे और उनकी बढ़वार का जतन करोगे। अगले दिन, वे पौधे बढ़ने भी लगेंगे किन्तु फसल उतारने के समय जब तुम उन बेलों के फल इकट्ठे करने जाओगे तब देखोगे कि सब कुछ सूख चुका है। एक बीमारी सभी पौधों का अंत कर देगी।

12 **הָיָה** **הַמּוֹן** **עַמּוּם** **רַבִּים** **כְּהִמּוֹת** **יָמָיו** **וְהָמּוֹן** **וּשְׂאוֹן** **לְאֻמִּים** **כְּשֶׂאוֹן** **מַיִם**  
 हाय शोर लोगों बहुतों-का गरजना-जैसे गरजते-हैं और-शोर और-शोर का जातियों-का शोर-जैसे पानी  
[H1945](#) [H1993](#) [H3220](#) [H1993](#) [H7588](#) [H3816](#) [H7588](#) [H4325](#)

**כְּבִירִים** **יִשְׂאוֹן:**  
 बहुत-का गरजता-है  
[H3524](#) [H7582](#)

हाय शोर लोगों बहुतों-का गरजना-जैसे गरजते-हैं और-शोर और-शोर का जातियों-का शोर-जैसे पानी

बहुत सारे लोगों का भीषणा नाद सुनो! यह नाद सागर के नाद जैसा भयानक है। लोगों का शोर सुनो। ये शोर ऐसा है जैसे सागर की लहरे टकरा उठती हो।

|                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |    |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----|
| מְרַחֵק               | וְנֹס                 | בּוֹ                  | וְנֶעַר               | יִשְׁאֹן              | רַבִּים               | מַיִם                 | כְּשֶׁאֵין            | לְאֲמִים              | 13 |
| दूर-से                | और-भागते-हैं          | उसे                   | और-डॉटता-है           | गरजती-हैं             | बहुत-का               | पानी                  | शोर-जैसे              | जातियाँ               |    |
| <a href="#">H4801</a> | <a href="#">H5127</a> |                       | <a href="#">H1605</a> | <a href="#">H7582</a> |                       | <a href="#">H4325</a> | <a href="#">H7588</a> | <a href="#">H3816</a> |    |
| סוּפָּה:              | לְפָנַי               | וּכְנִלְלִי           | רִיחַ                 | לְפָנַי               | הָרִים                | כְּמִן                | וּרְרָה               |                       |    |
| आँधी                  | सामने                 | और-गेंद-की-तरह        | हवा                   | सामने-                | पहाड़ों-की            | भूसी-की-तरह           | और-पीछा-किए-जाते-हैं  |                       |    |
|                       | <a href="#">H6440</a> | <a href="#">H1534</a> | <a href="#">H7307</a> | <a href="#">H6440</a> | <a href="#">H2022</a> | <a href="#">H4671</a> | <a href="#">H7291</a> |                       |    |

लोग उन्हीं लहरों जैसे होंगे। परमेश्वर उन लोगों को झिड़की देगा, और वे दूर भाग जायेंगे। लोग उस भूसे के समान होंगे जिस की पहाड़ी पर हवा उड़ती फिरती है। लोग वैसे हो जायेंगे जैसे आँधी उखाड़े जा रही है। आँधी उसे उड़ती है और दूर ले जाती है।

|                       |       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |    |
|-----------------------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----|
| שׁוֹטְיֵינוּ          | חֵלֶק | זֶה                   | אֵינָנוּ              | בְּקֶרֶב              | בְּטָרֵם              | בְּלִחְהָ             | וְהִנֵּה              | עֶרְבַּ               | לְעֵת                 | 14 |
| हमारे-लूटने-वालों-का  | भाग   | यह                    | है-नहीं-वह            | सुबह                  | पहले-                 | भय                    | और-देखो               | सांझ                  | समय-पर                |    |
| <a href="#">H8154</a> |       | <a href="#">H2088</a> | <a href="#">H0369</a> | <a href="#">H1242</a> | <a href="#">H2962</a> | <a href="#">H1091</a> | <a href="#">H2009</a> | <a href="#">H6153</a> | <a href="#">H6256</a> |    |
|                       |       |                       |                       |                       |                       | ס                     | לְבוֹיֵינוּ:          | וְנוֹרָל              |                       |    |
|                       |       |                       |                       |                       |                       | —                     | हमारे-लूटने-का        | और-भाग्य              |                       |    |
|                       |       |                       |                       |                       |                       |                       | <a href="#">H0962</a> | <a href="#">H1486</a> |                       |    |

उस रात लोग बहुत ही डर जायेंगे। सुबह होने से पहले, कुछ भी नहीं बच पायेगा। सो शत्रुओं को वहाँ कुछ भी हाथ नहीं आयेगा। वे हमारी धरती की ओर आयेंगे, किन्तु वहाँ भी कुछ नहीं होगा।